

-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक-30.08.2021

दिनांक 11/12.08.2021 की रात्रि थाना कोठरा क्षेत्रान्तर्गत सबरी चौराहे पर स्थित मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश, 06 अभियुक्त गिरफ्तार—

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 11/12.08.2021 की रात्रि सबरी चौराहा स्थित यूनाईटेड मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर दुकान में रखे स्मार्ट फोन, लैपटॉप व सामानों की चोरी की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कटरा पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा गठित टीम द्वारा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में गठित पुलिस टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए चोरी गए विभिन्न कम्पनियों के 43 अदद एन्ड्राएड मोबाइल फोन, 01 अदद एचपी कम्पनी का लैपटॉप को चौकी अष्टभुजा के पास से बरामद कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद इक्को वैन भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना को कारित करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि अन्य चोरी की गई मोबाइल को उन्होंने फिरोजाबाद में बेच दिया है तथा वे भिन्न-भिन्न जनपदों में उक्त इको वैन से चोरी की घटना कारित करके, चोरी की सामाग्रियों को बेचकर जीविकोपार्जन करने का कार्य करते हैं। बरामद वैन के वैद्य कागजात प्रस्तुत न कर पाने के कारण उक्त वैन को अंतर्गत धारा 207 में सीज किया गया एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण बरामदगी—

1. 43 अदद विभिन्न कम्पनियों के एन्ड्रायड स्मार्ट फोन, 04 अदद कीपैड मोबाइल व 01 अदद लैपटॉप।
2. ECCO वैन

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

- 1-भोला पुत्र राजपाल निवासी नवादा मखनपुर स्टेट बैंक के पीछे थाना मखनपुर जनपद फिरोजाबाद।
- 2-सलमान उर्फ जितेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी नवादा मखनपुर स्टेट बैंक के पीछे थाना मखनपुर जनपद फिरोजाबाद।
- 3-वसीम पुत्र नन्हे खाँ निवासी नवादा मखनपुर स्टेट बैंक के पीछे थाना मखनपुर जनपद फिरोजाबाद।
- 4-सत्येन्द्र उर्फ नीशु पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी लेवर कालोनी संजय मैरिज होम थाना लाइन पार जनपद फिरोजाबाद।

5-शेरा उर्फ विकास पुत्र श्याम बिहारी निवासी नवादा मक्खनपुर स्टेट बैंक के पीछे थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद ।

6-अरशद अली पुत्र स्व० बन्ने अली निवासी गालिबनगर गली नं० 7 थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान—

दिनांक 29.08.2021 को समय 17.15 बजे, चौकी अष्टभुजा के पास से ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

1-उ०नि० बाली मौर्या, चौकी प्रभारी मण्डी समिति, थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर ।

2-उ०नि० रामस्वरूप वर्मा, प्रभारी स्वाट टीम मीरजापुर ।

3-हे०का० बृजेश सिंह, हे०का० वीरेन्द्र सरोज, हे०का० राज सिंह राणा, का० अजय यादव, का० मिथिलेश यादव, का० नितिन कुमार सिंह, का० आशुतोष सिंह, का० संदीप राय, स्वाट टीम, मीरजापुर ।

4-हे०का० राहुल प्रताप सिंह, का० धनराज यादव, का० धीरेन्द्र श्रीवास्तव, का० पंकज दूबे थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर ।

